



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

जुलाई 18, 2025

संख्या 29

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	जुलाई 12	जुलाई 4	जुलाई 11	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3540350	3783786	3787651	3865	247301
1.1 संचलन में नोट	3540340	3783770	3787633	3863	247293
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	10	17	18	1	8
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	101	100	-1	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	952094	931978	930199	-1779	-21895
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8240	8259	8078	-181	-162
2.6 अन्य बैंक	54663	52752	52670	-82	-1992
2.7 अन्य	651772	789527	776661	-12866	124889
3 अन्य देयताएं	1723763	2184406	2190245	5839	466482
कुल देयताएं / आस्तियां	6931024	7750851	7745647	-5204	814623
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4928126	5081396	5084872	3476	156746
2 सोना	490045	724528	723791	-737	233746
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1346159	1788582	1787655	-927	441497
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	16359	30956	20431	-10525	4071
4.3 नाबाई	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8204	1282	1223	-59	-6981
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	130080	102946	106493	3547	-23587
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	9988	19097	19118	21	9130

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	जुलाई 11, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5978149	696672	2883	-3064	266008	28346	407528	29818
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5052566	588810	3381	-2477	201732	21252	161793	3340
1.2 स्वर्ण	723791	84348	-737	-498	55629	6172	233746	25685
1.3 विशेष आहरण अधिकार	161343	18802	223	-66	6054	633	10048	691
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	40448	4711	16	-24	2593	288	1942	102

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

जुलाई 11, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 952318 करोड़	2025												
	जून 28	जून 29	जून 30	जुलाई 1	जुलाई 2	जुलाई 3	जुलाई 4	जुलाई 5	जुलाई 6	जुलाई 7	जुलाई 8	जुलाई 9	जुलाई 10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	981726	978932	1015732	1006563	964750	956689	938996	936528	936050	930866	938849	920787	931896
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	103.1	102.8	106.7	105.7	101.3	100.5	98.6	98.3	98.3	97.7	98.6	96.7	97.9

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	जून 27, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	371107	30504	-12501	61693	24323	89137
1.2 बैंकों से उधार	100641	-8626	-32261	-11335	110437	-49527
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	24747	820	4142	-5168	15089	-51846
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23425644 (23373017)	355861	810171	845043	2129379 (2039982)	2140247 (2177017)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.5	4.0	3.7	11.1 (10.6)	10.1 (10.3)
2.1.1 मांग	3072874	213640	157824	374825	152756	471197
2.1.2 मीयादी	20352770	142221	652347	470217	1976623	1669050
2.2 उधारियां	850218	11756	-13481	-65030	289457	85757
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1059099	-46931	-7849	-2532	104706	129520
3 रिज़र्व बैंक से उधार	1065	-1183	-119975	-310401	51874	-101676
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1020154	-2771	57517	55865	93384	-58279
4.1 उपलब्ध नकदी	86671	-3801	15544	4797	-8904	-18307
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	933483	1030	41973	51069	102288	-39972
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	273829	19228	2201	58028	1542	73300
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	23913	2169	-749	-1925	-15591	12307
5.3 बैंकों को अग्रिम	31558	61	1920	-7946	21926	-18731
5.4 अन्य आस्तियां	69084	3235	-1318	1732	33230	-45022
6 निवेश	6696802 (6650215)	5258	51649	-1126	487586 (422242)	538595 (557353)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	0.8	0	8.6 (7.4)	8.7 (9.1)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6696347	5373	51460	-951	487205	539278
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	454	-115	189	-175	382	-683
7 बैंक ऋण	18483098 (18088612)	169135	453865	239125	2502310 (2002080)	1597069 (1702814)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	2.8	1.3	17.4 (13.9)	9.5 (10.4)
7 क.1 खाद्य ऋण	64389	-3217	10823	27858	5997	30485
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18418709	172352	443042	211268	2496313	1566584
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18143279	166724	430220	233428	2443600	1578757
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	79560	1435	7597	4597	24311	11496
7 ख.3 भुनाए गए	223845	80	15874	2785	39196	10613
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13787	277	498	-1334	-2353	-3122
7 ख.5 भुनाए गए	22626	618	-324	-350	-2444	-674

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समाप्त सप्ताह	2024	2025				
	जुलाई 12	जून 13	जून 20	जून 27	जुलाई 4	जुलाई 11
	1	3	4	5	6	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.96	4.44	..	4.36	..	..
	(4.94)	(4.43)	..	(4.35)	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	77.37	77.84	..	77.39	..	..
	(79.39)	(79.39)	..	(78.90)	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	57.50	18.77	..	31.23	..	..
	(54.12)	(14.31)	..	(28.30)	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.60	28.87	..	28.45	..	..
	(29.78)	(29.01)	..	(28.59)	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	31.41	-1.05	..	0.01	..	..
	(28.64)	(-1.31)	..	(-0.13)	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.30	9.10/10.30	9.10/10.30	8.50/10.30
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.10/8.60	8.15/8.25	8.15/8.25	7.95/8.25	7.95/8.20	7.95/8.20
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.30	6.00/6.85	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/2.75	2.50/2.75	2.50/2.75	2.50/2.75	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकित औसत)	6.48	5.30	5.27	5.29	5.31	5.32
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.76	5.37	5.36	5.41	5.37	5.39
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.87	5.43	5.46	5.54	5.50	5.54
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.92	5.50	5.50	5.57	5.55	5.58
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.02	6.31	6.33	6.33	6.33	6.33
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.54	86.10	86.61	85.56	85.39	85.85
भारतीय रुपया-यूरो स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.77	99.32	99.76	100.20	100.60	100.29
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	1.07	1.59	1.62	1.65	1.39	1.39
3-माह	1.15	1.53	1.57	1.66	1.61	1.52
6-माह	1.31	1.64	1.68	1.79	1.73	1.70

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फारवर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	जून 27	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27227143 (27286589)	28177467 (28230094)	334673 (333520)	1.2 (1.2)	870090	3.5	950324 (943504)	3.5 (3.5)	2276960	9.7	2475759 (2438989)	9.6 (9.5)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3722292	-22699	-0.6	35779	1.0	91540	2.5	211446	6.5	276237	8.0
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3215375	213499	7.1	159349	6.2	375353	13.2	155991	6.0	469139	17.1
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20643062 (20702508)	21131103 (21183730)	144020 (142867)	0.7 (0.7)	673732	3.6	488041 (481221)	2.4 (2.3)	1892437	10.8	1717453 (1680683)	8.8 (8.6)
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	108697	-147	-0.1	1230	1.3	-4610	-4.1	17086	21.7	12931	13.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8463065 (8510825)	8473446 (8520033)	-112823 (-112824)	-1.3 (-1.3)	-87875	-1.2	10381 (9207)	0.1 (0.1)	233800	3.3	1049305 (1030547)	14.1 (13.8)
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1513361	-89202		-167071		5255		-194110		487219	
2.1.2 अन्य बैंक	6954959 (7002720)	6960086 (7006672)	-23622 (-23623)	-0.3 (-0.3)	79196	1.3	5126 (3952)	0.1 (0.1)	427910	7.2	562086 (543328)	8.8 (8.4)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	18646762 (19068129)	18885784 (19280269)	170479 (166510)	0.9 (0.9)	476617	2.9	239022 (212141)	1.3 (1.1)	2025359	13.4	1737021 (1631276)	10.1 (9.2)
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	9029	-1234		-3484		-29216		5539		-1892	
2.2.2 अन्य बैंक	18608516 (19029883)	18876754 (19271240)	171713 (167744)	0.9 (0.9)	480101	2.9	268238 (241357)	1.4 (1.3)	2019820	13.4	1738914 (1633169)	10.1 (9.3)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6027804	6317253	-11329	-0.2	86217	1.5	289449	4.8	693395	14.0	663533	11.7
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	37291	0	0	634	1.9	659	1.8	3141	10.2	3226	9.5
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	5947120 (6356801)	5536307 (5924752)	-288346 (-291164)	-5.0 (-4.7)	-394497	-8.0	-410813 (-432049)	-6.9 (-6.8)	678735	17.5	977325 (889593)	21.4 (17.7)
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2168644	-13047	-0.6	-158305	-8.8	21217	1.0	149777	10.1	536814	32.9

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	जुलाई 11	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4926365	3143	0.1	49927	1.1	97122	2.0	327496	7.5	244992	5.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3825285	3863	0.1	62944	1.8	100837	2.7	222112	6.6	250879	7.0
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	990947	-2042	-0.2	-10452	-1.0	-541	-0.1	88032	9.5	-24049	-2.4
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	110133	1321	1.2	-2565	-2.7	-3174	-2.8	17352	23.3	18162	19.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1586327	-86821		-111676		78221		-163378		504790	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1565939	-76296		-121436		90479		-162141		500719	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-329536	93049		-87646		-210521		35559		-195743	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-337501	93381		-84347		-180240		28496		-192601	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5808706	2644	0.0	177605	3.4	257759	4.6	582512	12.0	390018	7.2
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	37652			634	1.9	1020	2.8	3141	10.2	3586	10.5
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2176784	5729	0.3	-71010	-4.0	29357	1.4	130338	8.2	457660	26.6

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएसओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्बेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
जुलाई 7, 2025	-	-	-	-	1051	250865	-230	-	-	-250044
जुलाई 8, 2025	-	-	-	-	1072	214021	-240	-	-	-213189
जुलाई 9, 2025	-	-	-	97315	1081	136036	-186	-	-	-232456
जुलाई 10, 2025	-	-	-	-	1078	124621	-45	-	-	-123588
जुलाई 11, 2025	-	-	-	151633	1223	187091	365	-	-	-337136
जुलाई 12, 2025	-	-	-	-	85	127893	-	-	-	-127808
जुलाई 13, 2025	-	-	-	-	81	132452	-	-	-	-132371

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	मई	जून	मई	जून	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	187.7	190.2	193.0	194.2	0.6	1.1	2.1
1.1 ग्रामीण	189.4	192.2	194.3	195.5	0.6	0.8	1.7
1.2 शहरी	185.7	187.8	191.5	192.6	0.6	1.4	2.6
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	139.9	141.4	144.0	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	153.5	154.0	154.1	153.8	-0.2	-0.6	-0.1
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	188.1	192.3	184.3	185.8	0.8	0.2	-3.4
3.2 ईंधन और बिजली	150.1	146.9	146.7	143.0	-2.5	-6.0	-2.7
3.3 विनिर्मित उत्पाद	142.0	142.0	144.9	144.8	-0.1	0.1	2.0

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जून 27, 2025	517439	85608	5.77 - 6.63
जुलाई 11, 2025	525254	18576	5.67 - 6.49

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जून 30, 2025	500001	58022	5.71 - 13.84
जुलाई 15, 2025	534009	79530	5.51 - 12.67

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	जुलाई 12, 2024	जुलाई 4, 2025	जुलाई 11, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	17506	25874	29963
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1358	7374	2214
3 त्रिपक्षीय रेपो	607911	858204	663802
4 बाजार रेपो	528564	789565	633563
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	4071	8251	9481

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

जुलाई 11, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	16732	16823	87277	217877
182-दिवसीय	50941	52998	17888	213788
364-दिवसीय	74980	76859	46459	354159
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (जुलाई 11, 2025 तक)	2024-25 (जुलाई 12, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (जुलाई 11, 2025 तक)	2024-25 (जुलाई 12, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	433000	400000	1400697	297914	265399	1039275
2. राज्य सरकारें	232249	166014	1073310	154598	97051	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल द्वारा प्रकाशित।